

# Exo

## Chapter 30

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
:אָתוּ תַעֲשֶׂה שְׂטִים עֲצֵי קַטְרֶת מִקְטָר מִזְבֵּחַ וְעֹשֶׂת  
उसे बनाना कीकर लकड़ी धूप जलाने-को वेदी और-बनाना  
[H0853](#) [H7848](#) [H6086](#) [H7004](#) [H4729](#) [H4196](#)

परमेश्वर ने मूसा से कहा, “बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाओ। तुम इस वेदी का उपयोग धूप जलाने के लिए करोगे।

2  
:קַרְנֹתָיו מִמֶּנּוּ קַמְתּוֹ וְאַמְתָּיִם יְהוּהָ רְבֹעַ רְחִבּוֹ וְאַמָּה אָרְכּוֹ וְאַמָּה  
उसके-सींग उसी-से उसकी-ऊँचाई और-दो-हाथ हो चौकोर उसकी-चौड़ाई और-हाथ उसकी-लम्बाई हाथ  
[H6967](#) [H1961](#) [H7251](#) [H7341](#) [H0753](#)

तुम्हें वेदी को वर्गाकार अट्टारह इंच लम्बी और अट्टारह इंच चौड़ी बनानी चाहिए। यह छत्तीस इंच ऊँची होनी चाहिए। चारों कोनों पर सींग लगे होने चाहिए। ये सींग वेदी के साथ एक ही इकाई के रूप में वेदी के साथ जड़े जाने चाहिए।

3  
:קַרְנֹתָיו וְאֶת-סָבִיב קִירָתוֹ וְאֶת-גִּזּוֹ אֶת-טְהוֹר זָהָב אָתוּ וְצִפִּיתָ  
उसके-सींगों और-को-चारों-ओर उसकी-दीवारों और-को-उसकी-छत को-शुद्ध सोने उसे और-मढ़ना  
[H0853](#) [H5439](#) [H7023](#) [H0853](#) [H1406](#) [H0853](#) [H2889](#) [H2091](#) [H0853](#) [H6823](#)  
:סָבִיב זָהָב זָר לְוְעֹשֶׂת  
चारों-ओर सोने किनारी उसके-लिए और-बनाना  
[H5439](#) [H2091](#) [H2213](#)

वेदी के ऊपरी सिरे तथा उसकी सभी भुजाओं को शुद्ध सोने से मढ़ो। वेदी के चारों ओर सोने की पट्टी लगाओ।

4  
:תַעֲשֶׂה צִלְעֹתָיו שְׁנֵי עַל לְזָרוֹ מִתְחַת וְלִוְתַעֲשֶׂה-זָהָב טַבְעֹת וְשֵׁתָ  
बनाना उसकी-बाजुओं दोनों पर उसकी-किनारी नीचे-से उसके-लिए बनाना-सोने कड़े और-दो  
[H6763](#) [H8147](#) [H2213](#) [H8478](#) [H2091](#) [H2885](#) [H8147](#)  
:בְּהֶמָּה אָתוּ לְשֵׂאת לְבָרִים לְבָרִים לְבָרִים וְהוּהָ צָרִיו שְׁנֵי  
उनसे उसे उठाने-को डंडों-के-लिए खच्चों-के-लिए और-हों उसकी-पहलुओं दोनों पर-  
[H1992](#) [H0853](#) [H5375](#) [H0905](#) [H1961](#) [H6654](#) [H8147](#)

इस पट्टी के नीचे सोने के दो छल्ले होने चाहिए। वेदी के दूसरी ओर भी सोने के दो छल्ले होने चाहिए। ये छल्ले वेदी को ले जाने के लिए बल्लियों को फँसाने के लिए होंगे।

5  
:זָהָב אֲתָם וְצִפִּיתָ שְׂטִים עֲצֵי הַבָּרִים אֶת-וְעֹשֶׂת  
सोने-से उन्हें और-मढ़ना कीकर लकड़ी डंडों को-और-बनाना  
[H2091](#) [H0853](#) [H6823](#) [H7848](#) [H6086](#) [H0905](#) [H0853](#)

बल्लियों को भी बबूल की लकड़ी से ही बनाओ। बल्लियों को सोने से मढ़ो।

6  
:אֲשֶׁר הַכַּפֹּרֶת לְפָנָיִם הָעֹרֹת אֲרָן-עַל-אֲשֶׁר הַפָּרֹכֶת לְפָנָיִם אֲתוֹ וְנִתְּנָה  
जो प्रायश्चित्त-ढक्कन के-सामने साक्ष्य सन्दूक पर-जो परदे के-सामने उसे और-देना  
[H3727](#) [H6440](#) [H5715](#) [H0727](#) [H6532](#) [H6440](#) [H0853](#) [H5414](#)  
:שָׂמָה לְ אֲשֶׁר אֲשֶׁר הָעֹרֹת  
वहाँ तुझसे मैं-मिलूँगा जहाँ साक्ष्य पर-  
[H8033](#) [H3259](#) [H5715](#)

वेदी को विशेष पर्दे के सामने रखो। साक्षीपत्र का सन्दूक उस पर्दे के दूसरी ओर है। उस सन्दूक को ढकने वाले ढक्कन के सामने वेदी रहेगी। यही वह स्थान है जहाँ मैं तुमसे मिलूँगा।

7 וְהִקְטִיר אֶלָּיו אֶהָרֹן קִטְרֹת סָמִים בְּבֹקֶר בְּבֹקֶר בְּהִיטִיבוֹ אֶת-הַנֶּהֱרֹת יִקְטִירָנָה:  
 और-जलाए उस-पर हासून हासून धूप धूप सुगंधित सुबह-में सुबह-में जब-वह-साफ़-करे को-दीपों जलाना-उसे  
[H0853](#) [H3190](#) [H1242](#) [H1242](#) [H5561](#) [H7004](#) [H0175](#)

“हासून हर प्रातः सुगन्धित धूप वेदी पर जलाएगा। वह यह तब करेगा जब वह दीपकों की देखभाल करने आएगा।

8 וְבַהֲעֹלֹת אֶהָרֹן אֶת-הַנֶּהֱרֹת בֵּין הָעֲרֹבִים יִקְטִירָנָה קִטְרֹת תָּמִיד לְפָנַי יְהוָה  
 और-जब-जलाए हासून को-दीपों बीच दोनों-शामों जलाना-उसे धूप नित्य के-सामने यहोवा  
[H3068](#) [H6440](#) [H8548](#) [H7004](#) [H6153](#) [H0996](#) [H0853](#) [H0175](#) [H5927](#)

לְדֹרֹתֵיכֶם:  
 तुम्हारी-पीढ़ियों-में  
[H1755](#)

उसे शाम को जब वह दीपकों की देखभाल करने आए फिर धूप जलानी चाहिए। जिससे यहोवा के सामने नित्य प्रति सुबह शाम धूप जलती रहे।

9 לֹא-תַעֲלוּ לֹא-קִטְרֹת זָרָה וְעֹלָה וּמִנְחָה וְזֶבֶח אֶת-הָאֵלֹהִים עֲלֵיו  
 न-चढ़ाना उस-पर धूप धूप अजनबी और-होमबलि और-अन्नबलि और-अर्घ्य न उड़ेलना उस-पर  
[H3808](#) [H5927](#) [H3808](#) [H7004](#) [H1755](#)

इस वेदी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की धूप या होमबलि के लिए मत करना। इस वेदी का उपयोग अन्नबलि या पेय भेंट के लिए मत करना।

10 וְכִפֹּר אֶהָרֹן עַל-קַרְנֹתָיו אַחַת בְּשָׁנָה מִיָּם חֲטָאת הַכִּפָּרִים אַחַת בְּשָׁנָה  
 और-प्रायश्चित्त-करे हासून पर-उसके-सींगों एक-बार एक-बार वर्ष-में वर्ष-में लहू-से पापबलि प्रायश्चित्त एक-बार वर्ष-में  
[H8141](#) [H0259](#) [H3725](#) [H1818](#) [H8141](#) [H0259](#) [H0175](#)

יְכַפֵּר עֲלָיו לְדֹרֹתֵיכֶם קֹדֶשׁ-קֹדְשִׁים הוּא לִיהוָה:  
 प्रायश्चित्त-करना उस-पर तुम्हारी-पीढ़ियों-में अति-पवित्र-पवित्रों-की है-यह यहोवा-के-लिए  
[H3068](#) [H1931](#) [H6944](#) [H6944](#) [H1755](#)

“वर्ष में एक बार हासून यहोवा को विशेष बलिदान अवश्य चढ़ाए। हासून पापबलि के खून का उपयोग लोगों के पापों को धोने के लिए करेगा, हासून इस वेदी के सींगों पर यह करेगा। यह दिन प्रायश्चित्त का दिन कहलाएगा। यह यहोवा के लिए अति पवित्र दिन होगा।”

11 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:  
 और-बोला यहोवा से-मूसा कहकर  
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

12 כִּי-תִשָּׂא תִשָּׂא אֶת-רֹאשׁ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל לְפָקְדֵיהֶם וְנָתַנּוּ אִישׁ כְּפָר  
 जब तू-गिनती-करे को-सिरों के-पुत्रों-इस्राएल उनकी-गिनती-के-लिए और-दें हर-एक फिरौती  
[H0376](#) [H5414](#) [H3478](#) [H0853](#) [H5375](#)

נִפְשׁוֹ וְיָהֳרֹג אֶת-נַפְשׁוֹ בְּפָקֶדְךָ לִיהוָה וְיָהֳרֹג אֶת-נַפְשׁוֹ בְּפָקֶדְךָ לִיהוָה  
 अपने-प्राण अपने-प्राण यहोवा-के-लिए यहोवा-के-लिए और-न-उन्हें जब-गिनती-करे जब-गिनती-करे  
[H0853](#) [H5063](#) [H1961](#) [H3808](#) [H0853](#) [H3068](#) [H5315](#)

“इस्राएल के लोगों को गिनो जिससे तुम जानोगे कि वहाँ कितने लोग है। जब कभी यह किया जाएगा हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए यहोवा को धन देगा। यदि हर एक व्यक्ति यह करेगा तो लोगों के साथ कोई भी भयानक घटना घटित नहीं होगी।

13 וְיָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג  
 यह गेरा शेकेल शेकेल शेकेल शेकेल शेकेल शेकेल शेकेल  
[H6242](#) [H6944](#) [H8255](#) [H8255](#) [H4276](#) [H3605](#) [H5414](#) [H2088](#)

יָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג יָהֳרֹג  
 गेरा शेकेल शेकेल शेकेल शेकेल शेकेल  
[H3068](#) [H8641](#) [H8255](#) [H4276](#) [H8255](#) [H1626](#)

हर व्यक्ति जिसे गिना जाए वह (आधा शेकेल चाँदी अवश्य दे।

14 כָּל הָעֶבֶר עַל- הַפְּקָדִים מִכּוּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמֵעֵלָּה יָתֵן תְּרוּמַת יְהוָה: 14  
सब जो-जाए पर- गिनती-किए-गए बीस वर्ष और-ऊपर दे उठावट-भेंट यहोवा  
H33605 H3808 H1800 H3808 H4591 H4276 H5414 H8641 H3068

हर एक पुरुष जिसे गिना जाए और जो बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का हो,) यहोवा को यह भेंट देगा।

15 הָעֶשְׂרִים לֹא- יִרְבֶּה וְהָדֵל לֹא יִמְעוּט מִמִּחְצִית הַשֶּׁקֶל לָתֵת אֶת- תְּרוּמַת 15  
धनी क- अधि- और-गरीब न कम-दे आधे-से आधे-को देने-को को- उठावट-भेंट  
H33608 H3808 H1800 H3808 H4591 H4276 H5414 H8641 H3068

יְהוָה לְכַפֵּר עַל- נַפְשֹׁתֵיכֶם: 15  
यहोवा प्रायश्चित्त-करने-को पर- तुम्हारे-प्राणों  
H33608 H5315

धनी लोग आधे शेकेल से अधिक नहीं देंगे और गरीब लोग आधे शेकेल से कम नहीं देंगे। सभी लोग यहोवा को बराबर ही भेंट देंगे यह तुम्हारे जीवन का मूल्य होगा।

16 וְלִקְחֹךָ אֶת- כֶּסֶף הַכַּפְּרִים מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתַתָּ אֹתוֹ עֲבֹדַת אֱהֹל 16  
और-लेना को- चाँदी प्रायश्चित्त से पुत्रों इसाएल और-देना उसे तम्बू सेवा पर-  
H33947 H0853 H3701 H0854 H3478 H5414 H0853 H5656 H0168

מֹזֵג וְהָיָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְזָכוֹן לְפָנָי יְהוָה לְכַפֵּר עַל- נַפְשֹׁתֵיכֶם: 16  
मिलाप और-हो और-पुत्रों के-लिए-पुत्रों के-सामने यहोवा प्रायश्चित्त-करने-को पर- तुम्हारे-प्राणों  
H4150 H1961 H3478 H2146 H6440 H3068 H5315

פ  
א

इसाएल के लोगों से यह धन इकट्ठा करो। मिलापवाले तम्बू में सेवा के लिए इसका उपयोग करो। यह भुगतान यहोवा के लिए अपने लोगों को याद करने का एक तरीका होगा। वे अपने जीवन के लिए भुगतान करते रहेंगे।”

17 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל- מֹשֶׁה לֵאמֹר: 17  
और-बोला और-यहोवा से- मूसा कहकर  
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

18 וְעָשִׂיתָ וְעָשִׂיתָ כִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְכִנּוֹ נְחֹשֶׁת לְרַחֲצָהּ וְנָתַתָּ אֹתוֹ בֵּין- אֱהֹל מֹזֵג 18  
और-बनाना और-हौज़ काँसा और-उसका-आधार और-उसके-आधार काँसा और-देना उसे तम्बू बीच- तम्बू मिलाप  
H3595 H3653 H7364 H5414 H0853 H0996 H0168 H4150

וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ וְנָתַתָּ שָׁמָּה מַיִם: 18  
और-बीच वेदी और-देना और-वहाँ पानी  
H0996 H4196 H5414 H8033 H4325

“एक काँसे की चिलमची बनाओ और इसे काँसे के आधार पर रखो। तुम इसका उपयोग हाथ पैर धोने के लिए करोगे। चिलमची को मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच रखो। चिलमची को पानी से भरो।

19 וְרָחֲצוּ וְרָחֲצוּ אֶת- מַנְּנוֹ אֶת- יְדֵיהֶם וְגַלְיָהֶם: 19  
और-धोएँ और-उसके-पुत्र और-उससे को- अपने-हाथों अपने-पैरों  
H7364 H0175 H0853 H3027 H0853 H7272

हारून और उसके पुत्र इस चिलमची के पानी से अपने हाथ पैर धोएँगे।

20 כְּבָאֵם אֶל- אֱהֹל מֹזֵג יְרַחֲצוּ- מַיִם וְלֹא יָמְתוּ אוֹ בְּנִשְׁתָּם אֶל- 20  
जब-वे-आएँ में- तम्बू मिलाप धोएँ- पानी और-न मरें या जब-वे-निकट-आएँ के-पास-  
H0935 H0413 H0168 H4150 H7364 H4325 H3808 H4191 H0413 H5066

הַמִּזְבֵּחַ לְשָׂרֵת לְהַקְטִיר אֵשָׁה לְיְהוָה: 20  
वेदी सेवा-करने-को जलाने-को अग्निबलि यहोवा-के-लिए  
H4196 H8334 H0801 H3068

हर बार जब वे मिलापवले तम्बू में आएँ तो पानी से हाथ पैर अवश्य धोएँ, इससे वे मरेंगे नहीं। जब वे वेदी के समीप यहोवा की सेवा करने या धूप जलाने आएँ,

לו	עֹלָם	חֶקֶל	לָהֶם	וְהִיְתָה	יָמְתוּ	וְלֹא	וּרְגִלֵיהֶם	יְדִיחֶם	וּרְחִצּוּ	21
उसके-लिए	सदा	विधि-	उनके-लिए	और-हो	मरें	और-न	और-अपने-पैरों	अपने-हाथों	और-धोएँ	
	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H2706</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H7364</a>	
							פ	לְדַרְתָּם:	וְלִזְרָעוֹ	
							¶	उनकी-पीढ़ियों-में	और-उसके-वंश-के-लिए	
								<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H2233</a>	

तो वे अपने हाथ पैर अवश्य धोएँ, इससे वे मरेंगे नहीं। यह ऐसा नियम होगा जो हारून और उसके लोगों के लिए सदा बना रहेगा। यह नियम हारून के उन सभी लोगों के लिए बना रहेगा जो भविष्य में होंगे।”

וַיְדַבֵּר	יְהוָה	אֵל-	מֹשֶׁה	לְאַמֵּר:	22
और-बोला	यहोवा	से-	मूसा	कहकर	
<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0559</a>	

तब यहोवा ने मूसा से कहा,

וְאַתָּה	קַח-	לָךְ	בְּשָׂמִים	רֹאשׁ	מָר-	דְּרוֹר	חֲמֵשׁ	מֵאַזֹּת	וְקִנְמוֹן-	בְּשָׂם	23
और-तू	लेना-	अपने-लिए	सुगन्धित-द्रव्य	उत्तम	गन्धरस-	शुद्ध	पाँच	सौ	और-दालचीनी-	सुगन्धित	
<a href="#">H3947</a>			<a href="#">H1314</a>		<a href="#">H4753</a>	<a href="#">H1865</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H7076</a>	<a href="#">H1314</a>	
מִחֲצִיתוֹ	חֲמֵשׁ	וּמֵאַזֹּתִים	וּקְנֵה-	בְּשָׂם	חֲמֵשִׁים	וּמֵאַזֹּתִים:					
उसका-आधा	पचास	और-दो-सौ	और-नरकट-	सुगन्धित	पचास	और-दो-सौ					
<a href="#">H4276</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H7070</a>	<a href="#">H1314</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H3967</a>					

“बहुत अच्छे मसाले लाओ। बारह पौंड द्रव लोबान लाओ और इस तोल का आधा अर्थात् छः पौंड, सुगन्धित दालचीनी और बारह पौंड सुगन्धित छाल,

וְקִנְיָה	חֲמֵשׁ	מֵאַזֹּת	בְּשָׂקֵל	הַקֹּדֶשׁ	וְשֶׁמֶן	זֵית	הַיִּין:	24
और-तजपत्र	पाँच	सौ	शेकेल-में	पवित्रस्थान	और-तेल	जैतून	हीन	
<a href="#">H6916</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H8255</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H2132</a>	<a href="#">H1969</a>	

और बारह पौंड तेजपात लाओ। इन्हें नापने के लिए प्रामाणिक बाटों का उपयोग करो। एक गैलन जैतून का तेल भी लाओ।

וְעֵשִׂיתָ	אֹתוֹ	שֶׁמֶן	מִשְׁחַת-	קֹדֶשׁ	רֶקֶח	מִרְקַחַת	מֵעֵשָׂה	רֶקֶח	שֶׁמֶן	מִשְׁחַת-	25
और-बनाना	उसे	तेल	अभिषेक-	पवित्र	मिश्रण	मिलावट	काम	इत्र-बनाने-वाले	तेल	अभिषेक-	
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H7545</a>	<a href="#">H4842</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H7543</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H0853</a>	
קֹדֶשׁ	יְהוָה:										
पवित्र	हो										
<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1961</a>										

“सुगन्धित अभिषेक का तेल बनाने के लिए इन सभी चीजों को मिलाओ।

וּמִשְׁחַת	בּוֹ	אֶת-	אֶהָל	מוֹעֵד	וְאֵת	אֶרֶן	הָעֵדוּת:	26
और-अभिषेक-करना	उससे	को-	तम्बू	मिलाप	और-को	सन्दूक	साक्ष्य	
<a href="#">H4886</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H5715</a>	

मिलापवाले तम्बू और साक्षीपत्र के सन्दूक पर इस तेल को डालो। यह इस बात का संकेत करेगा कि इन चीजों का विशेष उद्देश्य है।

וְאֵת-	הַשִּׁלְחָן	וְאֵת-	כָּל-	בְּלִי	וְאֵת-	הַמִּזְבֵּחַ	וְאֵת-	27
और-को-	मेज़	और-को-	सब	उसके-सामान	और-को-	दीपस्तम्भ	और-को-	
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7979</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4501</a>	<a href="#">H0853</a>	
מִזְבֵּחַ	הַקְּטֹרֶת:							
वेदी	धूप							
<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H7004</a>							

मेज़ और मेज़ पर की सभी तश्तरियों पर तेल डालो। इस तेल को दीपक और सभी उपकरणों पर डालो।

28	וְאֶת־ और-को-	מִזְבֵּחַ वेदी	הַעֲלָה होमबलि	וְאֶת־ और-को-	כָּל־ सब	כָּלֵיו उसके-सामान	וְאֶת־ और-को-	הַכִּיֹּר होड़ा	וְאֶת־ और-को-	כָּנּוֹ: उसके-आधार
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3595</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3653</a>

धूप वाली वेदी पर तेल डालो। यहोवा के लिए होमबलि वाली वेदी पर भी तेल डालो। उस वेदी की सभी चीजों पर यह तेल डालो। कटोरे और उसके नीचे के आधार पर यह तेल डालो।

29	וְקִדְשָׁתוּ और-पवित्र-करना	אֹתָם उन्हें	וְהָיוּ और-हों	קִדָּשׁ अति-पवित्र	קִדְשֵׁים पवित्रों-की	כָּל־ सब-	הַנֶּזֶעַ जो-छूए	בָּהֶם उन्हें	יְקַדְּשׁ: पवित्र-हो
	<a href="#">H6942</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6942</a>

तुम इन सभी चीजों को समर्पित करोगे। वे अत्यन्त पवित्र होंगी। कोई भी चीज जो इन्हें छूएगी वह भी पवित्र हो जाएगी।

30	וְאֶת־ और-को-	אֶהָרֹן हारून	וְאֶת־ और-को-	בְּנָיו उसके-पुत्रों	תְּמִשָּׁח अभिषेक-करना	וְקִדְשָׁתוּ और-पवित्र-करना	אֹתָם उन्हें	לְבָנָיו याजक-होने-को	לִי: मेरे-लिए
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4886</a>	<a href="#">H6942</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3547</a>	<a href="#">H3547</a>

“हारून और उसके पुत्रों पर तेल डालो। यह स्पष्ट करेगा कि वे मेरी विशेष डंग से सेवा करते हैं। तब ये मेरी सेवा याजक कि तरह कर सकते हैं।

31	וְאֶל־ और-से-	בְּנֵי पुत्रों	יִשְׂרָאֵל इस्राएल	תְּדַבֵּר बोलना	לְאֹמֶר कहकर	שֶׁמֶן तेल	מִשְׁחַת־ अभिषेक-	קִדָּשׁ पवित्र	יְהִי हो	זֶה यह	לִי मेरे-लिए
	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H2088</a>

לְדַרְתֵּיכֶם:  
तुम्हारी-पीढ़ियों-में  
[H1755](#)

इस्राएल के लोगों से कहो कि अभिषेक का तेल मेरे लिए सदैव अति विशेष होगा।

32	עַל־ पर-	בֶּשֶׂר मांस	אָדָם आदमी	לֹא न	יִיטָל उँडेला-जाए	וּבְמִתְכַנְתּוֹ और-उसके-नुस्खे-के-अनुसार	לֹא न	תַּעֲשֶׂוּ बनाना	כְּמֹהוּ उसके-जैसा	קִדָּשׁ पवित्र
	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3251</a>	<a href="#">H3251</a>	<a href="#">H4971</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H6944</a>
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1961</a>							
	הֲוֵא है-यह	קִדָּשׁ पवित्र	יְהִי हो	לְכֶם: तुम्हारे-लिए						

साधारण सुगन्ध की तरह कोई भी इस तेल का उपयोग नहीं करेगा। उस प्रकार कोई सुगन्ध न बनाओ जिस प्रकार तुमने यह विशेष तेल बनाया। यह तेल पवित्र है और यह तुम्हारे लिए अति विशेष होना चाहिए।

33	אִישׁ कोई	אֲשֶׁר जो	יִרְקַח मिलाए	כְּמֹהוּ उसके-जैसा	וְאֲשֶׁר और-जो	יִתֵּן दे	מִמֶּנּוּ उससे	עַל־ पर-	זָר पराये	וְנִכְרַת और-काट-दिया-जाए
	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H7543</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H3772</a>

מֵעַמִּי:  
अपने-लोगों-से

यदि कोई इस पवित्र तेल की तरह सुगन्ध बनाए और उसे किसी विदेशी को दे तो उस व्यक्ति को अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाये।”

34	וַיֹּאמֶר और-कहा	יְהוָה यहोवा	אֵל־ से-	מֹשֶׁה मूसा	קָח־ लेना-	לָךְ अपने-लिए	סֻמִּים सुगन्धित-द्रव्य	וְנָטַף नाटा	וּשְׁחִלְתָּ और-ओनिक्स	וּקְלָבָנָה और-गलबनुम
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H5561</a>	<a href="#">H5561</a>	<a href="#">H7827</a>	<a href="#">H7827</a>	<a href="#">H2464</a>
	סֻמִּים सुगन्धित-द्रव्य	וּלְבָנָה और-लोबान	זָכָה शुद्ध	בָּר बराबर	בְּבָר बराबर	יְהִי: हो	<a href="#">H5561</a>	<a href="#">H3828</a>	<a href="#">H2134</a>	<a href="#">H0905</a>

तब यहोवा ने मूसा से कहा, “इन सुगन्धित मसालों को लो: रसगंधा, कस्तूरी गंधिका, बिरोजा और शुद्ध लोबान। सावधानी रखो कि तुम्हारे पास मसालों की बराबर मात्रा हो।

קָדָשׁ :	טָהוֹר	מִמְלֵחַ	רֹקַח	מֵעֲשֻׂה	רֶקַח	קִטְרֶת	אֲתָהּ	וְעִשִׂיתְּ	35
पवित्र	शुद्ध	नमकीन	इत्र-बनाने-वाला	काम	मिश्रण	धूप	उसे	और-बनाना	
<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H2889</a>		<a href="#">H7543</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H7545</a>	<a href="#">H7004</a>	<a href="#">H0853</a>		

मसालों को सुगन्धित धूप बनाने के लिए आपस में मिलाओ। इसे उसी प्रकार करो जैसा सुगन्ध बनाने वाला व्यक्ति करता है। इस धूप में नमक भी मिलाओ। यह इसे शुद्ध और पवित्र बनाएगा।

לָל	אוֹעֵר	אֲשֶׁר	מוֹעֵד	בְּאֵהָל	הָעֵדוּת	לִפְנֵי	מִמֶּנּוּ	וְנִתְּנָה	הַרְקָה	מִמֶּנּוּ	וְשִׁחַקְתָּ	36
तुझसे	मैं-मिलूँगा	जहाँ	मिलाप	तम्बू-में	साक्ष्य	के-सामने	उससे	और-देना	बारीक	उससे	और-कूटना	
	<a href="#">H3259</a>		<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5715</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1854</a>		<a href="#">H7833</a>	

לְכֶם :	תְּהִיָּה	קָדָשִׁים	קָדָשׁ	שָׁמָּה
तुम्हारे-लिए	ही	पवित्रों-की	अति-पवित्र	वहाँ
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H8033</a>

कुछ धूप को तब तक पीसते रहो जब तक उसका बारीक चूर्ण न हो जाये। मिलापवाले तम्बू में साक्षीपत्र के सन्दूक के सामने इस चूर्ण को रखो। यही वह स्थान है जहाँ मैं तुमसे मिलूँगा। तुम्हें इस धूप के चूर्ण का उपयोग इसके अति विशेष अवसर पर ही करना चाहिए।

לָל	תְּהִיָּה	קָדָשׁ	לְכֶם	תַּעֲשֶׂוּ	לֹא	בְּמִתְכַנְּנֶהָ	תַּעֲשֶׂהָ	אֲשֶׁר	וְהִקְטַרְתָּ	37
तेरे-लिए	ही	पवित्र	अपने-लिए	बनाना	न	उसके-नुस्खे-के-अनुसार	बनाना	जो	और-धूप	
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6944</a>			<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4971</a>			<a href="#">H7004</a>	

לִיהוָה :  
यहोवा-के-लिए  
[H3068](#)

तुम्हें इस चूर्ण का उपयोग केवल विशेष ढँग से यहोवा के लिए ही करना चाहिए। तुम इस धूप को विशेष ढँग से बनाओगे। इस विशेष ढँग का उपयोग अन्य कोई धूप बनाने के लिए मत करो।

ס	מֵעַמּוּז :	וְנִקְרַתְּ	בָּהּ	לְהַרְיִחַ	כְּמוֹהָ	יַעֲשֶׂהָ	אֲשֶׁר-	אִישׁ	38
¶	अपने-लोगों-से	और-काट-दिया-जाए	उसे	सूँघने-को	उसके-जैसा	बनाए	जो-	कोई	
		<a href="#">H3772</a>		<a href="#">H7306</a>	<a href="#">H3644</a>			<a href="#">H0376</a>	

कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ ऐसे धूप बनाना चाह सकता है जिससे वह सुगन्ध का आनन्द ले सके। किन्तु यदि वह ऐसा करे तो उसे अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाये।”